



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 18—जुलाई 24, 2009 (आषाढ़ 27, 1931)  
No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 18—JULY 24, 2009 (ASADHA 27, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

### [PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली-110004, दिनांक 1 जून 2009

सं. ए-39011/36/06-प्रशासन--श्री रणजीत सिंह राणा, उप-सचिव, राष्ट्रपति सचिवालय, 31 मई, 2009 के अपराह्न से अधिवर्षिता अवधि के बाद सेवानिवृत्त हो गये हैं।

राज कुमार, अवर सचिव (प्रशासन)

दिनांक 1 जुलाई 2009

सं. ए-39011/37/06-प्रशासन--श्री भीखू राम, अनुभाग अधिकारी, राष्ट्रपति सचिवालय, 30 जून, 2009 के अपराह्न से अधिवर्षिता अवधि के बाद सेवानिवृत्त हो गये हैं।

राज कुमार, अवर सचिव (प्रशासन)

सं. ए-34011/4/06-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री करन कुमार, स्थायी सहायक, को 01 जुलाई 2009 के पूर्वाह्न से राष्ट्रपति सचिवालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

राज कुमार, अवर सचिव (प्रशासन)

नई दिल्ली-110004, दिनांक 1 जुलाई 2009

सं. ए-36011/06/06-प्रशा.--डॉ. क्रिस्टी एल. फेर्नांडेज़, भारतीय प्रशासनिक सेवा (जीजे : 73) की 30 जून, 2009 (अपराह्न) को अधिवर्षिता के परिणामस्वरूप, भारत की राष्ट्रपति, अनुबंध आधार पर डॉ. क्रिस्टी एल. फेर्नांडेज़ को 01 जुलाई, 2009 (पूर्वाह्न) से, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ कोर्टमिनस अवधि, या अगले आदेशों तक, के लिए राष्ट्रपति का सचिव नियुक्त करती हैं।

एफ. ए. किदवाई, उप सचिव

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110101, दिनांक 1 जुलाई 2009

सं. ए-22012/1/2009/पीएमए(स्थापना)--प्रधान मंत्री कार्यालय में निदेशक श्रीमती वी. विद्यावती, आई.ए.एस. (के.एन. : 91) की केन्द्र में प्रतिनियुक्ति की अवधि 30.06.2009 से आगे 25.02.2011 तक बढ़ाई जाती है।

के. सलिल कुमार, अवर सचिव

दिनांक 2 जुलाई 2009

सं. ए-22012/1/2009/पीएमए--राष्ट्रपति, श्रीमती पल्लवी जैन, आई.ए.एस. (एमपी : 94) को दिनांक 29 जून, 2009 (पूर्वाह्न) से प्रधान मंत्री कार्यालय में पांच वर्ष के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. सलिल कुमार, अवर सचिव

-----

सं. ए-22012/1/2009/पीएमए(स्थापना)--राष्ट्रपति, श्री राजीव टोपनो, आई.ए.एस. (गुजरात : 96) को दिनांक 29 जून, 2009 (पूर्वाह्न) से प्रधान मंत्री कार्यालय में चार वर्ष के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. सलिल कुमार, अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 जून 2009

सं. आरएस./3/2(1)/2009/32-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत सहायक निदेशक (लार्डिस), श्री त्रिलोक नाथ मिश्रा को 29 जून, 2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 + 7,600/- रुपए के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ उप निदेशक (लार्डिस) के ग्रेड में नियमित आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

सी. बी. राय, निदेशक

-----

दिनांक 30 जून 2009

सं. आरएस.1567/स्था.(कार्मिक)--अधिर्वर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री राजेश शर्मा, उप निदेशक (संपादन एवं अनुवाद) 30 जून, 2009 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए।

सी. बी. राय, निदेशक

-----

दिनांक 1 जुलाई 2009

सं. आरएस./3/7(1)/2009/34-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में सहायक निदेशक (संपादन और अनुवाद) के ग्रेड में कार्यरत निम्नलिखित व्यक्तियों को 01 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक सचिवालय में 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 में + 7,600/- रु. के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन ग्राह्य सामान्य भत्तों के साथ उप निदेशक (संपादन और अनुवाद) के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

1. श्रीमती सुचित्रा सान्याल

2. श्री भीम सिंह भारद्वाज

2. उपर्युक्त व्यक्तियों द्वारा तदर्थ आधार पर उप निदेशक (संपादन और अनुवाद) के ग्रेड में की गई सेवा को उक्त ग्रेड में वरिष्ठता और

अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति हेतु पात्रता के प्रयोजनार्थ शामिल नहीं किया जाएगा।

3. श्री सूरज मल, जिन्हें पहले दिनांक 5 मई, 2009 की अधिसूचना सं. आरएस/3/7(1)/2009/18-कार्मिक के द्वारा तदर्थ आधार पर उप निदेशक (संपादन और अनुवाद) के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को अब 1 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उक्त ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है।

सी. बी. राय, निदेशक

-----

सं. आरएस./3/7(1)/2009/35-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत श्री राजेश वर्मा, अनुवादक को 01 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 में + 5,400/- रुपए के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन ग्राह्य सामान्य भत्तों के साथ संपादक के ग्रेड में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री राजेश वर्मा द्वारा तदर्थ आधार पर संपादक के ग्रेड में की गई उस सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता और अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्रता के प्रयोजनार्थ शामिल नहीं किया जाएगा।

3. श्री पीयूष कांति, जिन्हें पहले दिनांक 5 मई, 2009 की अधिसूचना सं. आरएस.3/7(1)/2009/19-कार्मिक के द्वारा तदर्थ आधार पर संपादक के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को अब 1 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उक्त ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है।

सी. बी. राय, निदेशक

-----

सं. आरएस./6/3/2009/36-कार्मिक--30 जून, 2009 के पूर्वाह्न से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निजी सचिव के पद से कार्यमुक्त होने पर श्री गुरदीप सिंह वसीर को राज्य सभा सचिवालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 में + 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन तथा नियमों के अनुसार ग्राह्य सामान्य भत्तों के साथ राज्य सभा में विपक्ष के नेता के वैयक्तिक स्टाफ में 30 जून, 2009 के अपराह्न से आगामी आदेशों तक नियुक्त किया गया है।

2. श्री गुरदीप सिंह वसीर की नियुक्ति राज्य सभा में वर्तमान विपक्ष के नेता (श्री अरुण जेटली) के विवेकाधीन है और उनके कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएंगे।

सी. बी. राय, निदेशक

-----

नई दिल्ली, दिनांक 1 जुलाई 2009

सं. आरएस.3/1/1/2009/37-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत संयुक्त सचिव श्रीमती वंदना गर्ग को 01 जुलाई, 2009 के अपराह्न से आगामी

आदेशों तक इस सचिवालय में 37,400--67,000/- रु. के वेतन बैंड-4 में तथा 12,000/- रु. के ग्रेड वेतन में अपर सचिव के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

डी. बी. सिंह, संयुक्त सचिव

#### अन्तरिक्ष विभाग

बेंगलूर-560231, दिनांक 30 जून 2009

सं. ए-15016/1/2009--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में श्रीमती रत्ना दासगुप्ता, भारतीय राजस्व सेवा (89) को नियंत्रक (प्रशासन) के पद पर जून 24, 2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

#### योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 2009

सं. एफ.6(1799)/2000-प्रशासन-1 (खण्ड-2)--सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप, योजना आयोग में संयुक्त सचिव डॉ. डी. के. शर्मा, सी.एस.एस. (1974), दिनांक 30 जून, 2009 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त होते हैं।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

सं. एफ. 6(1848)/2002-प्रशासन-1--सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप, आई.ई.एस. के एन.एफ.एस.जी. अधिकारी तथा योजना आयोग में निदेशक, श्री जे. पी. विजय दिनांक 30 जून, 2009 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त होते हैं।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 24 जून 2009

सं. ए-11017/1/2005-प्रशा.-II--राष्ट्रपति ने, श्री रामकृष्ण और श्री प्रमोद कुमार (दोनों अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा के सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-II) जिन्होंने सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 31.03.2009 के आदेश सं. 12016/2/2009-एसएसएस के अनुसरण में सांख्यिकी अधिकारी (सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-1 स्तर) का पदभार ग्रहण कर लिया है, को 16.06.2009 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक तदर्थ पदोन्नति आधार पर 4,600/- रुपये ग्रेड पे सहित वेतन वर्ग-2 (रु. 9,300--34,800/-) में योजना आयोग में सांख्यिकी अधिकारी (सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-I स्तर) के पद पर नियुक्त किया है।

2. यह तदर्थ पदोन्नति उनको न तो सांख्यिकी अधिकारी (सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-I स्तर) के पद पर नियमित नियुक्ति का अधिकार प्रदान करेगी और न ही तदर्थ आधार पर नियुक्ति की अवधि सांख्यिकी अधिकारी (सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-I स्तर) के ग्रेड में वरीयता के लिए गिनी जाएगी।

एन. के. शर्मा, अवर सचिव

#### विधि और न्याय मंत्रालय

मुम्बई-20, दिनांक 30 जून 2009

सं. नं. पी.एफ/269/एच डी आर/2009 प्रशा.--श्री एच. डी. राठौड़ वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, शाखा सचिवालय मुम्बई में कार्यरत अधिकारी दिनांक 30 जून, 2009 को सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हो गये।

जे. खोसला, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

#### विधायी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 24 जून 2009

सं. ए-38012/2/2008-प्रशा.-I (वि.वि.)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में उप सचिव (केन्द्रीय सचिवालय सेवा) श्री एल. आर. राव, दिनांक 30 जून, 2009 की अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हो जाएंगे।

दया चन्द, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 1 जुलाई 2009

सं. ए-38020/2/2006-प्रशा.-I (वि.वि.)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के राजभाषा खंड में संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी (हिन्दी) डॉ. आर. पी. सिंह, दिनांक 30 जून, 2009 की अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हो गए हैं।

एम. आर. बीर, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 25 जून 2009

सं. ए-12023/4/2006-वि.सा.प्र.(प्र.)--राष्ट्रपति द्वारा विधि साहित्य प्रकाशन, श्री जी. सी. पन्त, विधि और न्याय मंत्रालय में सहायक, वेतन बैंड-2, वेतनमान 9,300--34,800/- रुपये + ग्रेड वेतन 4,200/- रुपये के पद पर की गई तदर्थ नियुक्ति की अवधि तीन मास अर्थात् अपराह्न 23 अगस्त, 2009 तक और बढ़ाई जाती है।

2. श्री जी. सी. पन्त की उपर्युक्त नियुक्ति से वे न तो सहायक प्रबंधक के ग्रेड में अपनी ज्येष्ठता का कोई दावा कर पाएंगे और न ही उनके द्वारा उस पद पर की गई सेवा को सहायक प्रबंधक के पद पर उनकी नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए गणना में लिया जाएगा।

कुलदीप कुमार, उप सचिव

#### विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 24 जून 2009

सं. ए-32012/5/2008-प्रशा.-I (वि.का.)--राष्ट्रपति, श्री वाई. के. सिंह, अधीक्षक (विधि) (वर्तमान में तदर्थ आधार पर सहायक विधि सलाहकार

के पद पर कार्यरत) को दिनांक 11 जून, 2009 के पूर्वाह्न से या अगले आदेशों तक और दिल्ली उच्च न्यायालय में श्री जे. टी. सुलक्षण राव द्वारा दायर रिट याचिका सं. 1385/08 और श्री एस. एन. टर्डल द्वारा दायर रिट याचिका सं. 4598/07 और 4241/08 के अंतिम निर्णय के अध्वधीन, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में रु. 6,600/- के ग्रेड वेतन सहित रु. 15,600--39,100/- के वेतन बैंड में नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से सहायक विधि सलाहकार के पद ( भारतीय विधि सेवा का विधि सलाहकार सेवा संवर्ग का ग्रेड-IV ) पर नियुक्त करते हैं।

वी. रवीन्द्रन, अवर सचिव

सं. ए-32012/5/2008-प्रशा.-I (वि.का.)--राष्ट्रपति, श्री बलबीर सिंह, अधीक्षक (विधि) (वर्तमान में तदर्थ आधार पर सहायक विधि सलाहकार के पद पर कार्यरत) को दिनांक 11 जून, 2009 के पूर्वाह्न से या अगले आदेशों तक और दिल्ली उच्च न्यायालय में श्री जे. टी. सुलक्षण राव द्वारा दायर रिट याचिका सं. 1385/08 और श्री एस. एन. टर्डल द्वारा दायर रिट याचिका सं. 4598/07 और 4241/08 के अंतिम निर्णय के अध्वधीन, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में रु. 6,600/- के ग्रेड वेतन सहित रु. 15,600--39,100/- के वेतन बैंड में नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से सहायक विधि सलाहकार के पद ( भारतीय विधि सेवा का विधि सलाहकार सेवा संवर्ग का ग्रेड-IV ) पर नियुक्त करते हैं।

वी. रवीन्द्रन, अवर सचिव

#### न्याय विभाग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 17 जून 2009

सं. के-11017/6/2009-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श के उपरान्त, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद् श्री उमानाथ सिंह को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सहर्ष स्थानान्तरित करते हैं और उन्हें दिनांक 01 जुलाई, 2009 को या इससे पूर्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

सं. के-11017/4/2009-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श के उपरान्त, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद् श्री सुशील हरकौली को झारखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सहर्ष स्थानान्तरित करते हैं और उन्हें दिनांक 01 जुलाई, 2009 को या इससे पूर्व झारखण्ड उच्च न्यायालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

दिनांक 1 जुलाई 2009

सं. के-13018/1/2009-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश न्यायविद् श्री हरेश्वर बरुवा को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से गुवाहाटी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

सं. के-13023/1/2009-यू.एस.-I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश (i) न्यायविद् श्री अरलि नागराज अमरप्पा और (ii) न्यायविद् श्री अरविंद शिवगौड़ पाच्छपुरे को उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

दिनांक 3 जुलाई 2009

सं. के-13028/1/2009-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पटना उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश (i) न्यायविद् श्री मिहिर कुमार झा और (ii) न्यायविद् श्री किशोर कुमार मंडल को, उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से पटना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

#### गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च 2009

सं. 37/1/2008-ई.पी.--श्री उत्पल चक्रवर्ती, सहायक अभिरक्षक, भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक कार्यालय, कोलकाता, को तत्काल प्रभाव से 6,500--10,500/- रु. के वेतनमान में विलयन आधार पर सहायक शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक, सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप-बी राजपत्रित, गैर-मंत्रालयीय पद पर नियुक्त किया जाता है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

एस. के. आहूजा, अवर सचिव

दिनांक 8 अप्रैल 2009

सं. 37/11/2008-ई.पी.--श्रीमती एस. एस. मुखर्जी, अधीक्षक, भारत में शत्रु सम्पत्ति के अभिरक्षक का कार्यालय, मुम्बई को दिनांक 01.04.2009 या जिस तारीख से वह शत्रु सम्पत्ति सहायक अभिरक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण करती है, इनमें से जो भी पहले हो, से रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड और रु. 4,200/- के ग्रेड वेतन में सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी ख, राजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय पद पर शत्रु सम्पत्ति के सहायक अभिरक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

एस. के. आहूजा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 2009

सं. 32013/02/2006-प्रशा. I (खण्ड-V)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित ग्रेड-1 अधिकारियों को चयन ग्रेड (उप सचिव) के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा में नियमित आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से नियुक्त करते हैं :--

क्र. अधिकारी सं. का नाम	चयन ग्रेड की चुनिंदा सूची का वर्ष	नियुक्ति की तिथि
1. श्री एस. सी. शिवाजी राव	2007	12.06.2009 (पूर्वाह्न)
2. श्री के. मुरलीधरन	2007	15.06.2009 (पूर्वाह्न)
3. श्रीमती मारकुट्टी चन्द्रहसन	2007	18.06.2009 (पूर्वाह्न)

जे. बी. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 3 जुलाई 2009

सं. 20/जी/3039-प्रशा. I--राष्ट्रपति, श्री जी. के. पिल्ले, भा.प्र.से. (केरल : 72) को गृह मंत्रालय में सचिव के रैंक एवं वेतन में दिनांक 30 जून, 2009 के अपराह्न से नियुक्त करते हैं। श्री पिल्ले का कार्यकाल अगले दो वर्षों के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा।

2. राष्ट्रपति, श्री जी. के. पिल्ले को साथ ही न्याय विभाग में भी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

जे. बी. शर्मा, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जून 2009

सं. 14015/03/2008-अ.भा.से.(I)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(I) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति असम की राज्य सिविल सेवा के एक सदस्य श्री दिलीप बोरथाकुर को चयन सूची वर्ष 2008 के लिए राज्य-सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(I) के अधीन भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगले आदेशों तक परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(I) के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के असम संवर्ग में आबंटित करते हैं।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

दिनांक 6 जुलाई 2009

सं. 14015/24/2008-अ.भा.से.(I)--कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा जारी दिनांक 12 जून, 2—152 GI/2009

2009 की अधिसूचना सं. 14015/24/2008 में क्रम सं. 04 पर अधिकारी अर्थात् श्रीमती डोमा टीशेयरिंग शेरपा (एस.टी.) के संबंध में चयन सूची, 2008 के नीचे दिए गए पादटिप्पण को विद्यमान नहीं के रूप में समझा जाए।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/24/2008-अ.भा.से.(I)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(I) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति चयन सूची वर्ष 2008 के लिए, राज्य-सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(I) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में पश्चिम बंगाल की पश्चिम बंगाल प्रशासनिक सेवा की सदस्य श्रीमती डोमा टीशेयरिंग शेरपा (एस.टी.) को अगले आदेशों तक परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(I) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के पश्चिम बंगाल संवर्ग में आबंटित करते हैं।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 19 जून 2009

सं. ए-32013/2/2008-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, श्री टी. जे. एस. चावला, केन्द्रीय सचिवालय सेवा को, दिनांक 18 जून, 2009 अपराह्न से अगले आदेश तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में वेतन बैंड-3 (पी.वी.-3) रूपए 15,600--39,100/- + 6,600/- (ग्रेड पे) में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

हरीश चन्द्र, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 मई 2009

सं. 14/पीए-II/2009--अधिर्वर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, भा.वि.से. (ख) के ग्रेड-I के अवर सचिव, श्री मनमोहन सिंह, सरकारी सेवा से 30 अप्रैल, 2009 के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो गए।

आर. गौरव श्रेष्ठ, उप सचिव

दिनांक 25 मई 2009

सं. क्यू/पीए-II/584/1/2008--भर्ती वर्ष 2008-09 (पूरक तालिका) के लिए, भा.वि.से. (ख) के ग्रेड-I से भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ

वेतनमान में पदोन्नति हेतु अनुमोदित अधिकारियों की चयनित सूची इस प्रकार है :—

क्र. सं.	नाम	वर्तमान तैनाती
	सर्वश्री	
1.	विकरांत रत्न	प्रथम सचिव, भारत का उच्चायोग, लंदन
2.	के. रघुराम	अवर सचिव, सचिवालय शाखा, चेन्नई
3.	(सुश्री) जयश्री कुन्दू	द्वितीय सचिव, भारत का उच्चायोग, लंदन
4.	संजय व्यास	द्वितीय सचिव, भारत का राजदूतावास, तेल अविब
5.	दिलबाग सिंह	द्वितीय सचिव, भारत का राजदूतावास, प्राग
6.	बलबीर सिंह सैनी	अवर सचिव (मध्य यूरोप)
7.	चरण जीत अरोड़ा	द्वितीय सचिव, भारत का राजदूतावास, प्योग्यांग
8.	यश पाल मोटवानी	द्वितीय सचिव, भारत का राजदूतावास, पोर्ट ऑफ स्पेन
9.	विजय नरेश मेहता	द्वितीय सचिव, भारत का राजदूतावास, हरारे
10.	प्रितपाल सिंह	अवर सचिव (पी. वी.-II)
11.	श्याम दत्त शर्मा	द्वितीय सचिव, भारत का राजदूतावास, वाशिंगटन
12.	राम निवास वत्स	द्वितीय सचिव, भारत का राजदूतावास, रियाध
13.	ए. आर. राधाकृष्णन	द्वितीय सचिव, भारत का राजदूतावास, अंकारा

2. चयनित सूची में अधिकारियों का नाम शामिल होने से, उनको किसी भी तारीख पर पदोन्नति का दावा करने का हक नहीं मिलता। भा.वि.से. के वरिष्ठ वेतनमान में वास्तविक पदोन्नति सेवा की आवश्यकता और पदों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

3. उपर्युक्त नियुक्तियाँ न्यायालय के ऐसे किसी भी निर्णय के अधीन होगा, जिसका इन पदोन्नति पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

4. चयनित सूची 06/05/2009 से एक वर्ष की अवधि के लिए क्रियात्मक रहेगी।

आर. गौरव श्रेष्ठ, उप सचिव  
(एफ. एस. पी. व संवर्ग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 जून 2009

सं. सी डी आर-II/560/6/2008--राष्ट्रपति, केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के ग्रेड-III (सहायक पासपोर्ट अधिकारी) संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके आगे उल्लिखित तारीख से केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के ग्रेड-II (उप पासपोर्ट अधिकारी) में नियुक्त करते हैं :—

क्र. सं.	नाम	पदोन्नति की तारीख
1.	श्री एस. वाई. चवन	09-02-2007
2.	श्री ओम प्रकाश	09-02-2007
3.	श्री एस. बी. हिरे	26-09-2008
4.	श्री बिधी चन्द	26-09-2008
5.	श्री वी. सुन्दर रमण	26-09-2008
6.	श्री एस. रमानाथन	26-09-2008
7.	श्री के. रूकमगाथन	26-09-2008
8.	श्रीमती वी. बी. काम्बले	26-09-2008
9.	श्री जी. ए. साने	26-09-2008

प्रित पाल सिंह, अवर सचिव (पी. वी.)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, दिनांक 18 जून 2009

सं. 27/34/2007-प्रशा.1ग--इस विभाग की दिनांक 30 मार्च, 2009 की अधिसूचना सं. 2/2009 फा.सं. 27/34/2007 प्रशा. 1ग में आंशिक संशोधन करते हुए "या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो" शब्दों को हटा दिया जाए।

विक्रम जेम्स, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 26 जून 2009

सं.5 (फा.सं. 5/1/2009-प्रशा.ई.डी.)--राष्ट्रपति, तदर्थ व्यवस्था के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय में दोनों सहायक निदेशकों (ग्रेड-1) श्री एस. के. चंद्रोकर एवं श्री आर. डी. गांधी को दिनांक 06.05.2009 से अगले आदेशों तक उप निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. पी. राय, अवर सचिव

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 10 जून 2009

सं. 03/2009 (फा.सं. ए-39012/4/2008-प्रशा. VIक)--भारत के राष्ट्रपति, श्रीमती श्रीदेवी शिवराजन, आई आर एस (95046), संयुक्त आयकर आयुक्त, रैंज-2, कन्नूर का केन्द्रीय सरकारी सेवा से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र स्वीकार करते हैं।

आर. एस. बिष्ट, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 26 जून 2009

सं. ए-22011/1/2009-प्रशा.1ए--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में, भारतीय आर्थिक सेवा के अकार्यात्मक चयन ग्रेड (एनएफएसजी) के अधिकारियों, जिन्हें वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (सीएजी) में अपग्रेड किया गया है, को 10,000/- रुपए के ग्रेड वेतन सहित 37,400--67,000/- रुपए के वेतन बैंड-4 में उनके नाम के समक्ष उल्लिखित 05 जून, 2009 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक, सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं :—

क्र.सं.	नाम	पदनाम	तारीख
1.	श्री के. एल. प्रसाद	सलाहकार	05.06.2009 (पूर्वाह्न से)
2.	श्री राजन कुमार	सलाहकार	05.06.2009 (पूर्वाह्न से)
3.	सुश्री शीला प्रसाद	सलाहकार	05.06.2009 (पूर्वाह्न से)
4.	श्री आर. एन. दूबे	सलाहकार	05.06.2009 (पूर्वाह्न से)

2. यह उन्नयन उस समय तक है जब तक पदोन्नति किए गए अधिकारी या तो सेवानिवृत्त नहीं हो जाते अथवा भारतीय आर्थिक सेवा में स्वीकृत

वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड पदों में समाविष्ट नहीं कर लिए जाते तदनुपरांत, ये पद एनएफएसजी स्तर में वापस ले लिए जाएंगे।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

दिनांक 29 जून 2009

सं. ए-12011/5/2009-प्रशा.1ए--इस विभाग की दिनांक 18 सितम्बर, 2008 की अधिसूचना सं.-12011/5/2008-प्रशा.1ए के अनुक्रम में, श्री राजीव नयन शर्मा की वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन सहित 15,600--39,100/- रु. (10,000--15,200/- रु., पूर्व संशोधित) के वेतन बैंड-3 में उप निदेशक (बी तथा ए) समूह "क", राजपत्रित के पद पर तदर्थ प्रतिनियुक्ति की अवधि 20.06.2009 से 19.06.2010 तक अथवा पद को नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती है।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

दिनांक 1 जुलाई 2009

सं. 11011/2/2009-प्रशा.1ए--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर कार्यरत श्री अरविन्द विरमानी की नियुक्ति को, 30 जून, 2009 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पश्चात् 3 माह के लिए अर्थात् 1 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न से 30 सितम्बर, 2009 के अपराह्न तक अथवा अगले आदेशों तक, बढ़ाते हैं।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 26 जून 2009

सं. ए-12011/7/2009-प्रशा.1ए--राष्ट्रपति, सुश्री ओमिता पॉल (भारतीय सूचना सेवा : 1973) (सेवानिवृत्त) को वित्त मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव के रैंक और वेतन में 26 जून, 2009 के पूर्वाह्न से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, वित्त मंत्री के सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

सागर मेहरा, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 2009

सं. ए-19011/10/2009-प्रशा.2--राष्ट्रपति, सुश्री नीता भूषण, (भारतीय विदेश सेवा : 94) को 29 जून, 2009 के अपराह्न से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)  
आर्थिक सलाहकार का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 2009

सं. ए-38013/2/2009-आ.स. (प्रशा.1)--वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार के कार्यालय में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत

श्रीमती रेनु भटनागर अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर दिनांक 30 जून, 2009 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगी।

रंजन मुखर्जी, उप निदेशक (प्रशा.)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 2009

सं. ए-12011/3/2009-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री संजीव कुमार, भा.प्र. से. (एजीएमयूटी : 92) को मंत्री जी के निजी सचिव के रूप में उनके कार्यकाल की शेष अवधि अर्थात् 09.03.2011 तक अथवा जब तक वे मंत्री जी के निजी सचिव के रूप में कार्य करते हैं अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए, निदेशक के स्तर पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं।

अरुणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

सं. ए-12011/11/2006-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.03.2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/2/2009-सीएस-2 के अनुसरण में राष्ट्रपति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग के आशुलिपिक ग्रेड "ग", श्री सुरेन्द्र सिंह रावत को सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा-2005 के आधार पर 9,300--34,800/- (पे बैंड) + 4,800/- रुपये (ग्रेड पे) के वेतनमान में 30 जून, 2009 के पूर्वाह्न से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग के आशुलिपिक ग्रेड क और ख (विलयित) के रूप में नियुक्त करती हैं।

अरुणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

दिनांक 6 जुलाई 2009

सं. ए-19011/6/2009-स्था.--राष्ट्रपति, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.05.2009 के आदेश संख्या 4/1/2009-सीएस-1(डी) द्वारा चयन ग्रेड (उप सचिव) चयन सूची वर्ष 2007 में शामिल किए जाने के फलस्वरूप, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 अधिकारी (अवर सचिव) श्री वी. के. सेठी को 25.06.2009 (पूर्वाह्न) से 15,600--39,100/- रु. के पे बैंड-3 + 7,600/- रु. के ग्रेड पे में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उप सचिव के पद पर नियुक्त करती हैं।

अरुणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 जुलाई 2009

सं. 18/7/2007-एसओ--राष्ट्रपति, कोयला मंत्रालय में सलाहकार (परियोजना), श्री पी. आर. मंडल को कोयला नियंत्रक के कार्यालय, कोलकाता में कोयला नियंत्रक के पद के सौंपे गए अतिरिक्त कार्यभार की अवधि को 30.06.2009 से 30.09.2009 तक अथवा इस पद पर नियमित नियुक्ति होने तक अथवा अगले आदेशों तक, इसमें से जो भी पहले हो, सहर्ष बढ़ाते हैं।

शरद घोड़के, निदेशक

## खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 जून 2009

सं. 3/6/2009-स्थापना--राष्ट्रपति, डॉ. रवि कोटा, भा.प्र.से. (असम :93) को, 18 जून, 2009 के पूर्वाह्न से उनके द्वारा खान मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करना बंद करने अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, निदेशक के स्तर पर, खान एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग मंत्री (श्री बी. के. हांडिक) का निजी सचिव नियुक्त करते हैं।

आर. के. मल्होत्रा, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 19 जून 2009

सं. 3/6/2009-स्था.--राष्ट्रपति, रेलवे बोर्ड के नियमित वैयक्तिक सहायक, श्री आर. के. भारद्वाज को 29 मई, 2009 के पूर्वाह्न से प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों पर खान तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के मंत्री (श्री बी. के. हांडिक) के अतिरिक्त निजी सचिव के तौर पर सहर्ष नियुक्त करते हैं। श्री आर. के. भारद्वाज, अतिरिक्त निजी सचिव का वेतन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 18 दिसम्बर, 1986 के का.ज्ञा. सं. 6/3/86-स्था. (भाग-II) में अन्तर्निहित अनुदेशों के अनुसार नियमित होगा।

2. श्री आर. के. भारद्वाज को नियुक्ति श्री बी. के. हांडिक खान मंत्री के कार्यकाल के साथ अथवा जब तक खान मंत्री जी को उनकी सेवाओं की आवश्यकता हो, इनमें से जो भी पहले हो, उसके साथ ही समाप्त होगी।

प्रमोद चंद, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली 110016, दिनांक 27 मई 2009

सं. एस.एम./04/74/2003--राष्ट्रपति भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को उसी विभाग में 10,000-325-15,200/- रुपये के पूर्व संशोधित वेतनमान में अधीक्षक सर्वेक्षक (ग्रुप 'ए') के पद पर उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से आगामी आदेशों तक नियमित आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री बी. एम. मोहन्ता	18.01.1996
2.	श्री निरंजन सामन्तरे	22.01.1996

बी. के. मंथन, डैस्क अधिकारी

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई 2009

सं. सी.12011/3/99-डी/डी एफ क्यू सी (पार्ट)--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. पी. के. गुहा को 07.09.2007 के (अपराह्न) से आगामी आदेशों तक 14,300--18,300/- (पूर्व संशोधित) रु. के वेतनमान में निदेशक, केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला कोलकाता के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता में इस मंत्रालय द्वारा दायर 2007 की सी पी सी 17 (2006 के ओ ए 264) और (2006 के ओ ए 644) में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, कोलकाता खंडपीठ के दिनांक 14.05.07 के आदेश के साथ पठित भारत संघ और प्रदीप कुमार गुहा तथा अन्य को 2007 की डब्ल्यू पी सी टी सं. 378 में माननीय उच्च न्यायालय में की गई अपील के बाद आए आदेश पर निर्भर है।

सुधीर कुमार, अवर सचिव

## स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई 2009

सं. ए-38012/8/2008-प्रशासन-I--अधिवर्षिता वय प्राप्त कर लेने पर श्री करनैल सिंह, निदेशक प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, दिनांक 30.06.2009 की अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

आर. के. कालड़ा, उप निदेशक प्रशासन

कृषि मंत्रालय  
(कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई 2009

सं. 3-2/2002-स्थापना--राष्ट्रपति, डॉ. मंगला राय, सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग तथा महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की नियुक्ति अवधि को 30.06.2009 को 62 वर्ष की आयु के उपरांत छः माह की अवधि अथवा अगले आदेश तक विस्तार प्रदान करते हैं।

राम अवतार, उप सचिव

## पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 जून 2009

सं. ए-15012/1/2009-प्रशासन-I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के बाद, इस विभाग के श्री थॉमस मैथ्यु, निदेशक को दिनांक 30 जून, 2009 के अपराह्न से सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त किया जाता है।

पी. एल. मीणा, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 जून 2009

सं. 3(11)/2009-कार्मिक-I--सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इस विभाग की सहायक, श्रीमती जेक्विन लाल को दिनांक 05.06.2009 के पूर्वाह्न से 4,800/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित 9,300--34,800/- रुपये के वेतन बैंड-2 के संशोधित वेतन ढाँचे में स्वस्थाने/वैयक्तिक आधार पर इस विभाग में अनुभाग अधिकारी (एनएफएसजी) नियुक्त किया है।

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक



सं. 3(11)/2009-कार्मिक.I--सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इस विभाग के सहायक, श्री महेश कुमार जैन को दिनांक 29.05.2009 के पूर्वाह्न से 4,800/- रुपए के ग्रेड वेतन सहित 9,300--34,800/- रुपए के वेतन बैंड-2 के संशोधित वेतन ढाँचे में स्वस्थाने/वैयक्तिक आधार पर इस विभाग में अनुभाग अधिकारी (एनएफएसजी) नियुक्त किया है।

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

सं. 3(12)/2009-कार्मिक.I--सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इस विभाग के वैयक्तिक सहायक, श्री भूषण कुमार को दिनांक 01.06.2009 के पूर्वाह्न से 4,800/- रुपए के ग्रेड वेतन सहित 9,300--34,800/- रुपए के वेतन बैंड-2 के संशोधित वेतन ढाँचे में स्वस्थाने/वैयक्तिक आधार पर इस विभाग में निजी सचिव (एनएफएसजी) नियुक्त किया है।

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

दिनांक 29 जून 2009

सं. 3(12)/2009-कार्मिक.I--राष्ट्रपति जी ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में उप निदेशक, श्री एस. एस. रावत को इस विभाग में दिनांक 26.06.2009 के पूर्वाह्न से 7,600/- रुपए के ग्रेड वेतन सहित 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 के संशोधित वेतन ढाँचे में स्वस्थाने/वैयक्तिक आधार पर संयुक्त निदेशक नियुक्त किया है।

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

सं. 3(12)/2009-कार्मिक.I--सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इस विभाग के वैयक्तिक सहायक, श्री ताराचन्द को दिनांक 26.06.2009 के पूर्वाह्न से 4,800/- रुपए के ग्रेड वेतन सहित 9,300--34,800/- रुपए के वेतन बैंड-2 के संशोधित वेतन ढाँचे में स्वस्थाने/वैयक्तिक आधार पर इस विभाग में निजी सचिव (एनएफएसजी) नियुक्त किया है।

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

दिनांक 30 जून 2009

सं. 4(273)/85-कार्मिक.I--सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संयुक्त निदेशक, श्रीमती रूबी बहल (कर्मचारी कोड सं. 214) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30.06.2009 के अपराह्न से सेवानिवृत्त होंगी।

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 2 जुलाई 2009

सं. पीएफ/1581/एनआईसी/2009-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, एतद्द्वारा श्री हरिओम प्रसाद, कर्मचारी कोड सं. 1581 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान

केन्द्र मुख्यालय, नई दिल्ली में वैज्ञानिक "सी" के पद से त्यागपत्र दिनांक 24 अगस्त, 2003 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उप निदेशक (प्रशासन-I)

सं. पीएफ/3165/एनआईसी/2009-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, एतद्द्वारा श्री रबिरश्मि साहू, कर्मचारी कोड सं. 3165 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, उड़ीसा राज्य एकक, भुवनेश्वर में वैज्ञानिक "सी" के पद से त्यागपत्र दिनांक 5 जनवरी, 1996 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उप निदेशक (प्रशासन-I)

सं. पीएफ/1736/एनआईसी/2009-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, एतद्द्वारा श्री भास्कर राव एम, कर्मचारी कोड सं. 1736 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, आन्ध्र प्रदेश राज्य एकक, हैदराबाद में वैज्ञानिक "सी" के पद से त्यागपत्र दिनांक 3 अक्टूबर, 1995 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उप निदेशक (प्रशासन-I)

मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 24 जून 2009

सं. 16(4)/2008-पीए(टीए)--राष्ट्रपति महोदय द्वारा इस निदेशालय के श्री कुशल सिंह सामंत वैज्ञानिक 'डी' को जोकि पे बैंड-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे 7,600/- के वेतनमान में कार्यरत हैं, पे बैंड-4 रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड पे 8,700/- के वेतनमान में वैज्ञानिक 'ई' के पद पर दिनांक 11.05.2009 से नियुक्त किया है।

एस. रामाकृष्णन, उप निदेशक

सं. 16(4)/2008-पीए(टीए)--राष्ट्रपति महोदय द्वारा इस निदेशालय के निम्न वैज्ञानिक 'सी' जोकि पे बैंड-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे 6,600/- के वेतनमान में कार्यरत हैं, उन्हें वैज्ञानिक 'डी' के पद पर पे बैंड-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे 7,600/- के वेतनमान में दिनांक 11.05.2009 (पूर्वाह्न) को नियुक्त किया है :-

1. श्री राधा मोहन अर्माया
2. श्री अहमद उल्लाह खान
3. श्री राम स्नेही

एस. रामाकृष्णन, उप निदेशक

सं. 16(4)/2008-पीए(टीए)--राष्ट्रपति महोदय द्वारा इस निदेशालय के निम्न वैज्ञानिक 'बी' जोकि पे बैंड-2 रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड पे 5,400/- के वेतनमान में कार्यरत हैं, उन्हें वैज्ञानिक 'सी' के पद पर पे

बैंड-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे 6,600/- के वेतनमान में प्रत्येक के नाम के आगे दर्शायी तारीख से नियुक्त किया है :--

क्र. सं.	नाम	तिथि
1.	श्रीमती नयनतारा श्रीवास्तव	- 11.05.2009
2.	श्री सुशील कुमार नेहरा	- 11.05.2009
3.	श्री प्रेम चन्द	- 19.05.2009

एस. रामाकृष्णन, उप निदेशक

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 2 जुलाई 2009

सं. ई(जी.पी.)2007/3/1--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेलों के लेखा विभाग के 2 ग्रुप 'बी' अधिकारियों की उल्लिखित रेलों पर 30.04.2009 से भारतीय रेल लेखा सेवा (आई.आर.ए.एस.) के कनिष्ठ वेतनमान में नियमित रूप से नियुक्ति किये जाने का अनुमोदन करते हैं :--

2008-09 के लिए पैनल

अधिकारियों के नाम

सर्व श्री

पूर्व रेलवे

1. यू. वी. आर. मूर्ति

2. पी. एन. साहा (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

के. बी. एल. मित्तल, सचिव  
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(जी.पी.)2004/1/50--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेल के यांत्रिक इंजीनियरी विभाग के निम्नलिखित ग्रुप 'बी' अधिकारी की, उल्लिखित रेल पर, 10.06.2008 से भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरी (आई.आर.एस.एम.ई.) सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में नियमित रूप से नियुक्ति किये जाने का अनुमोदन करते हैं। बहरहाल, श्री राकेश कुमार राठौर 01.04.2009 से ही कनिष्ठ वेतनमान में वित्तीय लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे :--

2006-07 के लिए पैनल

अधिकारी का नाम

सर्व श्री

उत्तर रेलवे

राकेश कुमार राठौर (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

के. बी. एल. मित्तल, सचिव  
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक जुलाई 2009

सं. ईआरबी-1/2009/3/1--रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (रे.बो.स.से.) के निम्नलिखित सहायकों को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाई गई तारीख

से नियमित आधार पर 9,300--34,800/- + ग्रेड पे 4,800/- रुपए (संशोधित) के पे बैंड-2 में आरबीएसएस के अनुभाग अधिकारियों के रूप में पदोन्नत किया जाता है :--

क्र. सं.	नाम	कर्यभार ग्रहण करने की तारीख
	सर्वश्री	
1.	आरती सिंह लाल	01.06.2009 (पूर्वाह्न)
2.	यासीर रिज़वी	17.06.2009 (पूर्वाह्न)

के. बी. एल. मित्तल, सचिव  
(रेलवे बोर्ड)

पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई 2009

सं. पीआर-14019/14/2009-पी.जी.(अ.)--केन्द्र सरकार एतद्द्वारा श्री अरविन्द कुमार, भारतीय अर्थ सेवा, सदस्य (परिवहन अनुसंधान विंग), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 15 जून, 2009 से 31 जुलाई, 2009 की अवधि के लिए महापतन प्रशुल्क प्राधिकरण के सदस्य का अतिरिक्त कार्यभार संभालने हेतु नियुक्त करती है।

राकेश मल्होत्रा, उप सचिव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 2009

सं. ए-12023/1/2009-ई-1--राष्ट्रपति, भारतीय कपास निगम में उप प्रबंधक श्री के. कंडास्वामी को माननीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) (श्री कमल नाथ) के सहायक निजी सचिव के पद पर दिनांक 01.06.2009 (पूर्वाह्न) से 9,300--34,800/- रुपए के पे बैंड-2 और 4,800/- रुपए के ग्रेड पे में प्रतिनियुक्ति/सह-अवसानी आधार पर अगले आदेशों तक अथवा जब तक मंत्री जी उनकी सेवा लेना चाहें तब तक, इनमें जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

वी. कृष्णास्वामी, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई 2009

सं. 20/2009, फाईल सं. 25/3/(15)/2008-स्थापना-एक--संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2007 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति ने श्री अमिताभ मीणा को दिनांक 21.05.2009 पूर्वाह्न से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप क) सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल) के पद पर वेतन बैंड-3 रु. 15,600--39,100/- तथा ग्रेड पे रु. 5,400/- के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री अमिताभ मीणा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

के. राजप्पा, अवर सचिव

## PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi-110004, the 1st June 2009

No.A. 39011/36/06-Admn.—On attaining the age of superannuation, Shri Ranjit Singh Rana, Deputy Secretary, President's Secretariat, retired from Govt. Service with effect from the afternoon of 31st May, 2009.

RAJ KUMAR, Under Secy.

The 1st July 2009

No.A.39011/04/06-Adm.—On attaining the age of superannuation, Shri Bhikhu Ram, Section Officer, President's Secretariat, retired from Govt. Service with effect from the afternoon of 30th June, 2009.

RAJ KUMAR, Under Secy.

No. A.39011/04/06-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Karan Kumar, Assistant, as Section Officer in the Presidents's Secretariat with effect from the forenoon of 1st July, 2009.

RAJ KUMAR, Under Secy.

New Delhi-110004, the 1st July 2009

No. A.36011/06/06-Admn.—Consequent upon superannuation of Dr. Christy L. Fernandez, IAS (GJ :73) on 30th June, 2009 (A/N), the President is pleased to appoint Dr. Christy L. Fernandez as Secretary to the President with effect from 01 July, 2009 (F/N) on contract basis for a period of co-terminus with the tenure of the President of India or until further orders, whichever is earlier.

P. A. KIDWAI, Dy. Secy.

## PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110101, the 1st July 2009

No. A.22012/1/2009-PMA(Estt.)—The Central Deputation tenure of Smt. V. Vidyavathi, IAS (KN : 91) Director in the Prime Minister's Office is extended for a period beyond 30.06.2009 and upto 25.02.2011.

K. SALIL KUMAR, Under Secy.

The 2nd July 2009

No. A.22012/1/2009-PMA(Estt.)—The President is pleased to appoint Smt. Pallavi Jain, IAS, (MP : 94) as Director in the Prime Minister's Office with effect from the forenoon of 26.06.2009 for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

K. SALIL KUMAR, Under Secy.

No. A.22012/1/2009-PMA(Estt.)—The President is pleased to appoint Shri Rajeev Topno, IAS, (GJ : 96) as Deputy Director in the Prime Minister's Office with effect from the forenoon of 29.06.2009 for a period of four years or until further orders, whichever is earlier.

K. SALIL KUMAR, Under Secy.

## RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 29th June 2009

No. RS.3/2(1)/2009/32-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Trilok Nath Mishra, Assistant Director (LARRDIS) in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Deputy Director (LARRDIS) Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- plus usual allowances admissible under the rules, on regular basis in that Secretariat with effect from the forenoon of the 29th June, 2009, until further orders.

C.B. RAI, Director

The 30th June 2009

No. RS/1567/Estt.(P)—On attaining the age of superannuation, Shri Rjesh Sharma, Deputy Director (E&T) retired from the service with effect from the afternoon of 30th June, 2009.

C.B. RAI, Director

The 1st July 2009

No. RS/3/7(1)/2009/34-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint the following persons in the grade of Assistant Director (E&T) in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Deputy Director (E&T) in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- plus usual allowances admissible under the rules, on ad hoc basis in that Secretariat with effect from the forenoon or 1st July, 2009, until further orders :—

1. Smt. Suchitra Sanyal
2. Shri Bhim Singh Bhardwaj

2. The services rendered on ad hoc basis by the abovementioned persons in the grade of Deputy Director (E&T) will not be counted for the purpose of seniority in that grade and for eligibility for promotion to the next higher grade.

3. Shri Suraj Mal, who was earlier appointed to officiate as Deputy Director (E&T) on ad hoc basis vide Notification No. RS/3/7(1)/2009/18-Pers, dated 5th May, 2009, has now been appointed on regular basis in that grade with effect from the forenoon of 1st July, 2009, until further orders.

C.B. RAI, Director

No. RS/3/7(1)/2009/35-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Rajesh Verma, Translator in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Editor in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- plus usual allowances admissible under the rules, on ad hoc basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 1st July, 2009, until further orders.

2. The services rendered on ad hoc basis by Shri Rajesh Verma in the grade of Editor will not be counted for the purpose of seniority in that grade and for eligibility for promotion to the next higher grade.

3. Shri Piyush Kanti, who was earlier appointed to officiate as Editor on ad hoc basis vide Notification No. RS/3/7(1)/2009/19-Pers, dated 5th May, 2009, has now been appointed on regular basis in that grade with effect from the forenoon of 1st July, 2009, until further orders.

C.B. RAI, Director

No. RS/6/3/2009/36-Perl.—On being relieved from the post of Private Secretary in the Ministry of Petroleum & Natural Gas w.e.f. the forenoon of 30th June, 2009, Shri Gurdeep Singh Vasir has been appointed on deputation basis as Senior Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,400/- plus usual allowances admissible under the rules, in the personal staff of Leader of Opposition, Rajya Sabha w.e.f. the afternoon of 30th June, 2009.

2. The appointment of Shri Gurdeep Singh Vasir is at the discretion of the present Leader of Opposition, Rajya Sabha (Shri Arun Jaitley) and co-terminus with the term of his office.

C.B. RAI, Director

New Delhi-110001, the 1st July 2009

No. RS/3/1/2009/37-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Smt. Vandana Garg, Joint Secretary in the Rajya Sabha Secretariat as Additional Secretary in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 12,000/- in that Secretariat with effect from the afternoon of 1st July 2009, until further orders.

D. B. SINGH, Jt. Secy.

#### DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560 231, the 30th June 2009

No. A-15016/1/2009—The President is pleased to appoint Smt. Ratna Dasgupta, IRS (89), as Controller (Administration) in ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of

Space with effect from the forenoon of June 24, 2009 and until further orders.

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

#### PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 30th June 2009

No. F. 6(1799)/2000-Adm. I (Vol. II)—On attaining the age of superannuation, Dr. D. K. Sharma, CSS (1974), Joint Secretary, Planning Commission retires from Government Service w.e.f. the afternoon of 30th June, 2009.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

No. F.6(1848)/2002-Adm.I—On attaining the age of superannuation, Shri J. P. Vijay, NFSG officer os IES and Director, Planning Commission retires from Government service w.e.f. 30.06.2009 (A.N.)

S. KESAVA IYER, Under Secy.

New Delhi, the 24th June 2009

No. A.11017/1/2005-Admn.II—The President is pleased to appoint Shri Ram Krishna and Shri Pramod Kumar [both Statistical Investigator Grade-II of Sub-ordinate Statistical Service], who have assumed charge of the post in pursuance of Ministry of Statistics & Programme Implementation Order No. 12016/2/2009-SSS dated 31.03.2009, to the post of Statistical Officer [Statistical Investigator Grade-I level] in the Planning Commission on adhoc promotion basis in the Pay Band-2 [Rs. 9300—34800/-] with Grade Pay of Rs. 4600/- with effect from 16.06.2009 (F.N.) and until further orders.

2. This adhoc promotion will not bestow upon them any right to claim regular appointment to the post of Statistical Officer [Statistical Investigator Grade-I level] nor shall the period of adhoc appointment count for the purpose of seniority in the grade of Statistical Officer [Statistical Investigator Grade-I level].

N. K. SHARMA, Under Secy.

#### MINISTRY OF LAW & JUSTICE

Mumbai-400020, the 30th June 2009

No. PF/269/HDR/2009-Admn—On attaining the age of superannuation, Shri H. D. Rathod, Senior Govt. Advocate in the Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs, Branch Secretariat, Mumbai retires from Government Service with effect from the afternoon of 30/06/2009.

J. KHOSLA, Joint Secy.  
& Legal Adviser

## LEGISLATIVE DEPARTMENT

New Delhi, the 24th June 2009

No. A. 38012/2/2008-Admn.I(L.D.)—Shri L. R. Rao, Deputy Secretary (CSS), in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice, will stand retired from Government service with effect from the afternoon of 30th June, 2009 on attaining the age of superannuation.

DAYA CHAND, Dy. Secy.

New Delhi, the 1st July 2009

No. A. 38020/2/2006-Admn.I(L.D.)—On attaining the age of superannuation Dr. R. P. Singh, Joint Secretary and Legislative Counsel (Hindi) in the Official Languages Wing, Legislative Department, Ministry of Law and Justice, retired from Government service with effect from the afternoon of 30th June, 2009.

M. R. BEERH, Dy. Secy.

New Delhi, the 25th June 2009

No. A. 12023/4/2006-VSP (A)—The President is pleased to extend the adhoc appointment of Shri G. C. Pant, Assistant Manager, Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Vidhi Sahitya Prakashan for a further period of three months, till afternoon of 23rd August, 2009 in the Pay Band-2, the pay scale of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4200/- or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

2. The above appointment of Shri G. C. Pant will neither bestow on her any claim for her seniority in the grade of Assistant Manager nor the service rendered by her as such counted for her appointment in the post of Assistant Manager on regular basis.

KULDEEP KUMAR, Dy. Secy.

## DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 24th June 2009

No. A-32012/5/2008-Admn.I(LA)—The President is pleased to appoint Shri Y. K. Singh, superintendent (Legal) [presently working as Assistant Legal Adviser on adhoc basis] to officiate as Assistant Legal Adviser (Grade-IV of Legal Adviser Service cadre of ILS) on regular basis, in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with grade pay of Rs. 6,600/- in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, w.e.f. the forenoon of 11th June, 2009 or until further orders subject to the final outcome of the writ petitions No. 4598/07 and No. 4241/08 filed by Sh. S. N. Terdal and No. 1385/08 filed by Sh. J. T. Sulaxan Rao in the Delhi High Court.

V. RAVINDRAN, Under Secy.

No. A-32012/5/2008-Admn.I(LA)—The President is pleased to appoint Shri Balbir Singh, Superintendent (Legal) [presently working as Assistant Legal Adviser on adhoc basis] to officiate as Assistant Legal Adviser (Grade-IV of Legal Adviser Service cadre of ILS) on regular basis, in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with grade pay of Rs. 6,600/- in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, w.e.f. the forenoon of 11th June, 2009 or until further orders subject to the final outcome of the writ petitions No. 4598/07 and No. 4241/08 filed by Sh. S. N. Terdal and No. 1385/08 filed by Sh. J. T. Sulaxan Rao in the Delhi High Court.

V. RAVINDRAN, Under Secy.

## DEPARTMENT OF JUSTICE

New Delhi-110011, the 17th June 2009

No. K. 11017/6/2009-U.S. II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Justice Shri Uma Nath Singh, Judge of the Punjab and Haryana High Court as a Judge of the Allahabad High Court and to direct him to assume charge of his office in the Allahabad High Court on or before 1st July, 2009.

RAMESH ABHISHEK, Joint Secy.

No. K. 11017/4/2009-U.S. II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Justice Shri Sushil Harkauli, Judge of the Allahabad High Court as a Judge of the Jharkhand High Court and to direct him to assume charge of his office in the Jharkhand High Court on or before 1st July, 2009.

RAMESH ABHISHEK, Joint Secy.

The 1st July 2009

No. K. 13018/1/2009-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Justice Shri Hareswar Baruah, Additional Judge of the Gauhati High Court, to be a Judge of the Gauhati High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

No. K. 13023/1/2009-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Justice Shri Arali Nagaraj Amarappa and (ii) Justice Shri zArvind Shiwagouda Pachhapure, Additional Judges of the Karnataka High Court

to be Judges of the Karnataka High Court, in that order of seniority, with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

The 3rd July 2009

No. K. 13028/1/2009-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Justice Shri Mihir Kumar Jha and (ii) Justice Shri Kishore Kumar Mandal, Additional Judges of the Patna High Court, to be Judges of the Patna High Court, in that order of seniority, with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 18th March 2009

No. 37/1/2008-EP—Shri Utpal Chakraborty, Assistant Custodian in the office of Custodian of Enemy Property for India, Kolkata, is appointed on absorption basis to the post of Assistant Custodian of Enemy Property, General Central Service, Gr. B. Gazetted, non-ministerial post, in the pay scale of Rs. 6,500—10,500/- with immediate effect.

This issues with the approval of Competent Authority.

S. K. AHUJA, Under Secy.

The 8th April 2009

No. 37/11/2008-EP—Smt. S. S. Mukherjee, Superintendent in the office of Custodian of Enemy Property for India, Mumbai, is appointed as Assistant Custodian of Enemy Property, General Central Service Gr. B., Gazetted, non-ministerial post, in the pay band of Rs. 9,300—34,800/- plus grade pay Rs. 4,200/-, w.e.f. 1.4.2009 or the date on which she joins duty as Assistant Custodian of Enemy Property, whichever is later.

This issues with the approval of Competent Authority.

S. K. AHUJA, Under Secy.

New Delhi, the 30th June 2009

No. A-32013/02/2006-Ad.I(Pt.V)—The President is pleased to appoint the following Grade I Officers of the Central Secretariat Service in the Selection Grade (Deputy

Secretary) of Central Secretariat Service on regular basis with effect from the dates indicated against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer	Select List year for Selection Grade	Date of appointment
1.	Shri S. C. Shivaji Rao	2007	12.06.2009 (FN)
2.	Shri K. Muralidharan	2007	15.06.2009 (FN)
3.	Smt. Marykutty Chandrahasan	2007	18.06.2009 (FN)

J. B. SHARMA, Under Secy.

The 3rd July 2009

No. 20/G/3039-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri G. K. Pillai, IAS (KL:72), as Home Secretary in the rank and pay of Secretary with effect from the afternoon of 30th June, 2009. The tenure of Shri Pillai will be for two years or until further orders, whichever is earlier.

2. The President is also pleased to appoint Shri G. K. Pillai concurrently as Secretary in the Department of Justice.

J. B. SHARMA, Under Secy.

#### MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 25th June 2009

No. 14015/03/2008-AIS(I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint Shri Dilip Borthakur, a member of the State Civil Service of Assam to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List year 2008 on probation until further orders and to allocate him to the joint IAS Cadre of Assam-Meghalaya, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

The 6th July 2009

No. 14015/24/2008-AIS(I)—In the Notification No. 14015/24/2008-AIS(I)-A dated 12th June, 2009, issued by

the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions (Department of Personnel & Training), footnote given below the Select List of 2008 in respect of officer at Sl. No. 04 therein, viz. Smt. Doma Tshering Sherpa (ST) may be treated as non existent.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/24/2008-AIS(I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint Smt. Doma Tshering Sherpa (ST), a member of the State Civil Service of West Bengal to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List year 2008, on probation until further orders and to allocate her to the West Bengal Cadre of IAS Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

New Delhi, the 19th June 2009

No. A-32013/2/2008-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri T. J. S. Chawla, CSS, as Under Secretary in the pay band-3 (PB-3) Rs. 15,600—39,100/- + 6,600 (Grade Pay) in the Department of Personnel & Training with effect from the afternoon of 18th June, 2009 until further orders.

HARISH CHANDER, Under Secy.

#### MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 8th May 2009

No. 14/PA-II/2009—On attaining the age of superannuation, Shri Man Mohan Singh, Under Secretary in the Grade-I of IFS (B), retired from the Government Service on the afternoon of 30th April, 2009.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy.

The 9th June 2009

No. 15/PA-II/2009—The President is pleased to appoint the following officers of Grade-I of IFS (B) to the Senior

Scale of Indian Foreign Service with effect from the dates mentioned against their names:—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Promotion to Senior Scale of IFS
	(S/Shri)	
1.	Vikrant Rattan	06th May 2009
2.	K. Raghuram	06th May 2009
3.	Ms. Jayashree Kundu	06th May 2009
4.	Sanjay Vyas	06th May 2009
5.	Dilbagh Singh	06th May 2009
6.	Balbir Singh Saini	06th May 2009
7.	Charan Jeet Arora	06th May 2009
8.	Yash Pal Motwani	06th May 2009
9.	Prit Pal Singh	06th May 2009
10.	Shyam Datt Sharma	06th May 2009
11.	Ram Niwas Vats	06th May 2009
12.	A. R. Radhakrishnan	06th May, 2009
13.	Vijay Naresh Mehta	05th June, 2009

2. The above appointments will be subject to any Court decision, which may have a bearing on these promotions.

R. GAURAV SHRESTH  
Dy. Secy. (FSP & Cadre)

New Delhi, the 23rd June 2009

No. CDR-II/560/6/2008—The President is pleased to appoint the following officers of Grade-III (Assistant Passport Officer) of the cadre of the Central Passport Organisation to Grade-II (Deputy Passport Officer) of the Central Passport Organisation in an officiating capacity with effect from the date mentioned against each:—

Sl. No.	Name	Date of promotion
1.	Sh. S. Y. Chavan	09.02.2007
2.	Sh. Om Prakash	09.02.2007
3.	Sh. S. B. Hire	26.09.2008
4.	Sh. Bidhi Chand	26.09.2008
5.	Sh. V. Sundararaman	26.09.2008
6.	Sh. S. Ramanathan	26.09.2008
7.	Sh. K. Rukmangathan	26.09.2008
8.	Smt. V. B. Kamble	26.09.2008
9.	Sh. G. A. Sane	26.09.2008

PRIT PAL SINGH  
Under Secy. (PV)

MINISTRY OF FINANCE  
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 18th June 2009

CORRIGENDUM

No. 27/34/2007-Ad. IC—In partial modification of this Department's notification No. 2/2009 in F. No. 27/34/2007-Ad. IC dated 30th March, 2009 the words "or until further orders whichever is earlier" may be deleted.

VICTOR JAMES, Under Secy.

New Delhi, the 26th June 2009

No. 5 (F. No. 5/1/2009-Ad. ED).—The President is pleased to appoint Shri S. K. Chandorkar and R. D. Gandhi, both Assistant Directors (Grade-I) to the post of Deputy Director in the Enforcement Directorate under adhoc arrangement with effect from 6.5.2009 till further orders.

S. P. ROY, Under Secy.

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 10th June 2009

No. 03 of 2009 (F. No. A-39012/4/2008-Ad. VIA)—The President is pleased to accept the resignation of Smt. Sridevi Shivarajan, IRS (95046), Jt. Commissioner of Income Tax, Range-2, Kannur from Central Govt. Service with immediate effect.

R. S. BIST, Under Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 26th June 2009

No. A-22011/1/2009-Admn. IA—The President is pleased to appoint the following Non Functional Selection Grade (NFSG) officers of the Indian Economic Service who are upgraded to the Senior Administrative Grade (SAG) in the service as Advisers as mentioned against each in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 10,000/- with effect from the forenoon of 5th June, 2009 and until further orders :—

Sl. No.	Name	Designation	Date
1.	Sh. K. L. Prasad	Adviser	w.e.f. 05.06.2009 (FN)
2.	Sh. Rajan Kumar	Adviser	w.e.f. 05.06.2009 (FN)
3.	Ms. Sheela Prasad	Adviser	w.e.f. 05.06.2009 (FN)
4.	Sh. R. N. Dubey	Adviser	w.e.f. 05.06.2009 (FN)

2. The upgradation is till such time the promoted officers either retire or are covered within the sanctioned Senior

Administrative Grade posts in the IES, after which, the posts shall slide back to the NFSG level.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

The 29th June 2009

No. A-12011/5/2008-Ad-IA—In continuation of this Department's Notification No. A-12011/5/08-Ad. IA dated 18th September, 2008 the term of deputation of Shri Rajeev Nayan Sharma in the post of Deputy Director (B&A), Group "A" Gazetted in the Pay Band-3 Rs. 15,600—39,100 + Rs. 6,600/- as Grade Pay (Rs. 10,000—15,200/- pre revised) in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs is extended for a period w.e.f. 20.6.2009 to 19.6.2010.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

The 1st July 2009

No. 11011/2/2009-Ad. IA—The President is pleased to extend the appointment of Shri Arvind Virmani as Chief Economic Adviser in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs beyond the age of superannuation on 30th June, 2009 for a period of three months i.e. with effect from the forenoon of 1st July, 2009 to the afternoon of 30th September, 2009 or until further orders.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

New Delhi, the 26th June 2009

No. A-12011/7/2009-Admn. II—The President is pleased to appoint Ms. Omita Paul, (IIS : 1973) (Retd.) as Adviser to the Finance Minister in the rank and pay of the Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance, with effect from the forenoon of 26th June 2009 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

SAGAR MEHRA, Dy. Secy.

New Delhi, the 30th June 2009

No. A-19011/10/2009-Admn.-II—The President is pleased to appoint Ms. Neeta Bhushan, (IFS : 94), as Director, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, with effect from the afternoon of 29th June 2009 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY  
(OFFICE OF THE ECONOMIC ADVISER)

New Delhi, the 30th June 2009

No. A-38013/2/2009-Ec. Ad. (Admn.-I)—On attaining the age of superannuation, Smt. Renu Bhatnagar, Assistant



Director in the Office of the Economic Adviser, Ministry of Commerce & Industry, shall stand retired from Government Service, with effect from the afternoon of 30th June, 2009.

RANJAN MUKHERJEE, Dy. Dir. (Admn.)

## MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi the 30th June 2009

No. A-12011/3/2009-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Sanjiv Kumar, IAS [AGMUT : 92] as Private Secretary to the Minister of petroleum & Natural Gas [Shri Murli Deora] at Director level, w.e.f. 29.05.2009, for the balance tenure available to him as Private Secretary to the Minister i.e. upto 09.03.2011 or until he works as PS to the Minister or until further orders, whichever is earlier.

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

No. A-12011/11/2006-Estt.—In terms of Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/2/2009-CS.II dated 16th March, 2009, the President is pleased to appoint Shri Surender Singh Rawat, Stenographer Grade 'C' of CSSS cadre of Ministry of Petroleum & Natural Gas, as Stenographer Grade 'A&B' [merged] of CSSS cadre in the Ministry of Petroleum & Natural Gas on the basis of Limited Departmental Competitive Examination-2005 in the pay scale of Rs. 9,300—34,800 [PB] + Rs. 4,800/- [GP] with effect from the forenoon of 30.06.2009.

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

The 6th July 2009

No. A. 19011/6/2009-Estt.—Consequent on inclusion in the Selection Grade (Deputy Secretary) Select List Year 2007, vide Department of Personnel & Training's Order No. 4/1/2009-CS. I(D) dated 8th May, 2009, the President is pleased to appoint Shri V. K. Sethi, a Grade-I (Under Secretary) officer of CSS, as Deputy Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/-, w.e.f. 25.06.2009 (FN).

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

## MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 2nd July 2009

No. 18/7/2007-ASO—The President is pleased to extend the period of additional charge of the post of Coal Controller in the Coal Controller's Organization, Kolkata assigned to Shri P. R. Mandal, Adviser (Projects), Ministry of Coal for further period beyond 30.06.2009 and upto 30.09.2009 or till regular appointment to the post is made or until further orders, whichever is the earlier.

SHARAD GHODKE, Director

## MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 19th June 2009

No. 3/6/2009-Estt.—The President is pleased to appoint Dr. Ravi Kota, IAS (AM : 93) as Private Secretary to the Minister of Mines & DONER (Shri B. K. Handique) at the level of Director with effect from the forenoon of 18th June, 2009 till he ceases to function as Private Secretary to the Minister of Mines or until further orders whichever event occurs the earliest.

R. K. MALHOTRA, Dy. Secy.

New Delhi, the 19th June 2009

No. 3/6/2009-Estt.—The President is pleased to appoint R. K. Bhardwaj, a regular Personal Assistant of Railway Board as Additional Private Secretary to the Minister of Mines & DONER (Shri B. K. Handique) with effect from the forenoon of 29th May, 2009 on general deputation terms. The Pay of Shri R. K. Bhardwaj, Addl. P. S. would be regulated in accordance with the instructions contained in Department of Personnel & Training's O. M. No. 6/3/86-Estt. (P. II) dated 18th December, 1986.

2. The appointment of Shri R. K. Bhardwaj will be co-terminus with the tenure of Shri B. K. Handique, Minister of Mines or till the Minister of Mines desires his services, whichever is earlier.

PRAMOD CHAND, Under Secy.

## MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY (DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 27th May 2009

No. SM/04/74/2003—The President is pleased to appoint the following Officers in Survey of India to officiate as Superintending Surveyor (Group 'A') in the pre-revised pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- in that Department on regular basis with effect from the date(s) mentioned against them, until further orders :—

Sl. No.	Name of Officer	Date of Promotion
1.	Shri B. M. Mohanta	18.01.1996
2.	Shri Niranjana Samantray	22.01.1996

B. K. MANTHAN, Desk Officer

## MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 3rd July 2009

No. C-12011/3/99-D/DFQC (Pt.)—On the recommendations of Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri P. K. Guha to the post of Director, Central Drugs Laboratory, Kolkata in the scale of pay of Rs. 14,300—18,300/- (pre-revised), w.e.f. 07.09.2007 (A/N) and until further orders.

2. The above appointment is subject to the outcome of the Appeal in the Hon'ble High Court in WPCT No. 378 of 2007-Union of India Vs. Pradip Kumar Guha & Ors. read with Central Administrative Tribunal, Calcutta Bench Order dated 14.05.07 in CPC 17 of 2007 (OA 264 of 2006) and (OA 644 of 2006) filed by this Ministry in the Hon'ble High Court at Calcutta.

SUDHIR KUMAR, Under Secy.

#### DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 6th July 2009

No. A. 38012/8/2008-Admn. I—On attaining the age of superannuation Shri Karnail Singh, Director Administration in the Directorate General of Health Services has retired from Government service with effect from 30.06.2009 (Afternoon).

R. K. KALRA, Dy. Director Admn. (RKK)

#### MINISTRY OF AGRICULTURE (DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH & EDUCATION)

New Delhi, the 3rd July 2009

No. 3-2/2002-Estt.—The President is pleased to extend the term of appointment of Dr. Mangala Rai, Secretary, Department of Agricultural Research & Education and Director General, Indian Council of Agricultural Research for a period of six months beyond the age of 62 years on 30.06.2009 or until further orders.

RAM AUTAR, Dy. Secy.

#### DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

New Delhi, the 30th June 2009

No. A. 15012/1/2009-Admn. I—On attaining the age of superannuation, Shri Thomas Mathew, Director in this Department retires from Government service with effect from the afternoon of 30th June, 2009.

P. L. MEENA, Under Secy.

#### MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 23rd June 2009

No. 3(11)/2009-Pers. I—The Secretary, Department of Information Technology is pleased to appoint Smt. Jacqueline Lall, Assistant of this Department as Section Officer (NFSG) on in-situ/personal basis in this Department in the revised structure of pay of Pay Band-2 i.e. Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from the forenoon of 05.06.2009.

GIRISH SAHAI, Jt. Director

No. 3(11)/2009-Pers. I—The Secretary, Department of Information Technology is pleased to appoint Shri Mahesh Kumar Jain, Assistant of this Department as Section Officer (NFSG) on in-situ/personal basis in this Department in the revised structure of pay of Pay Band-2 i.e. Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from the forenoon of 29.05.2009.

GIRISH SAHAI, Jt. Director

No. 3(12)/2009-Pers. I—The Secretary, Department of Information Technology is pleased to appoint Shri Bhushan Kumar, Personal Assistant of this Department as Private Secretary (NFSG) on in-situ/personal basis in this Department in the revised structure of pay of Pay Band-2 i.e. Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from the forenoon of 01.06.2009.

GIRISH SAHAI, Jt. Director

The 29th June 2009

No. 3(12)/2009-Pers. I—The President is pleased to appoint Shri S. S. Rawat, Deputy Director, Department of Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology as Joint Director on in-situ/personal basis in this Department in the revised structure of pay of Pay Band-3 i.e. Rs. 15,600 - 39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from the forenoon of 26.06.2009.

GIRISH SAHAI, Jt. Director

No. 3(12)/2009-Pers. I—The Secretary, Department of Information Technology is pleased to appoint Shri Tara Chand, Personal Assistant of this Department as Private Secretary (NFSG) on in-situ/personal basis in this Department in the revised structure of pay of Pay Band-2 i.e. Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from the forenoon of 26.06.2009.

GIRISH SAHAI, Jt. Director

The 30th June 2009

No. 4(273)/85-Pers. I—On attaining the age of superannuation, Smt. Ruby Bahl, Joint Director (E. Code 214), Department of Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology retires from service with effect from afternoon of 30.06.2009.

GIRISH SAHAI, Jt. Director

#### NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 2nd July 2009

No. PF/1581/NIC/2009-Adm. I—The President is pleased to accept the resignation of Shri Hari Om Prasad, Emp.

Code-1581, from the post of Scientist "C", NIC-Hqrs., New Delhi with effect from the afternoon of 24.08.2003 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Director (Adm. I)

No. PF/3165/NIC/2009-Adm. I—The President is pleased to accept the resignation of Shri Rabirashmi Sahoo, Emp. Code : 3165, from the post of Scientist "C", NIC-Orissa State Unit, Bhubaneswar with effect from the afternoon of 05.01.1996 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Director (Adm. I)

No. PF/1736/NIC/2009-Adm. I—The President is pleased to accept the resignation of Shri Bhaskara Rao M. Emp. Code : 1736, from the post of Scientist "C", NIC-Andhra Pradesh State Unit, Hyderabad with effect from the afternoon of 03.10.1995 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Director (Adm. I)

#### STANDARDISATION, TESTING & QUALITY CERTIFICATION DIRECTORATE

New Delhi-110003, the 24th June 2009

No. 16(4)/2008-PA(TA)—The President is pleased to appoint Shri Kushal Singh Samant, Scientist 'D' in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 7,600) of this Directorate as Scientist 'E' in the Pay Band-4 Rs. 37,000—67,000/- + Grade Pay Rs. 8,700/-) with effect from 11.5.2009 (F.N).

S. RAMAKRISHNAN, Dy. Director

No. 16(4)/2008-PA(TA)—The President is pleased to appoint the following Scientist 'C' in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600) of this Directorate as Scientist 'D' in the Pay Band-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 7,600/-) as indicated against each with effect from 11.5.2009 (F.N.) :—

1. Shri Radha Mohan Amarya
2. Ahmed Ullah Khan
3. Shri Ram Sanehi

S. RAMAKRISHNAN, Dy. Director

No. 16(4)/2008-PA(TA)—The President is pleased to appoint the following Scientist 'B' in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 5,400) of this Directorate as Scientist 'C' in the Pay Band-3 Rs. 15,600—39,100/- +

Grade Pay Rs. 6,600/-) with effect from the date indicated against each :—

- |                              |   |            |
|------------------------------|---|------------|
| 1. Smt. Nayantara Srivastava | — | 11.05.2009 |
| 2. Shri Sushil Kumar Nehra   | — | 11.05.2009 |
| 3. Shri Prem Chand           | — | 19.05.2009 |

S. RAMAKRISHNAN, Dy. Director

#### MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 2nd July 2009

No. E(GP)2007/3/1—The President is pleased to approve of the undermentioned 2 Group 'B' officers of Accounts Department of Indian Railways, being appointed to the Junior Scale of Indian Railway Accounts Service (IRAS) with effect from 30.04.2009 on the Railways mentioned against each ;—

#### PANEL FOR 2008-2009

##### Eastern Railway

S/Shri

1. U. V. R. Murty
2. P. N. Saha (SC) (Promoted against SC vacancy)

K. B. L. MITTAL, Secy.  
(Railway Board)

No. E(GP)2004/1/50—The President is pleased to approve of the undermentioned Group 'B' officers of Mechanical Engineering Department of Indian Railways, being appointed to the Junior Scale of Indian Railway Service of Mechanical Engineers (IRSME) with effect from 10.06.2008 on the Railways mentioned. Shri Rakesh Kumar Rathore would, however, be entitled to monetary benefit in Jr. Scale w.e.f. 1.4.2009 only :—

#### PANEL FOR 2006-2007

##### Northern Railway

Shri Rakesh Kumar Rathore (SC) (Promoted against SC vacancy)

K. B. L. MITTAL, Secy.  
(Railway Board)

The 3rd July 2009

No. ERB-I/2009/3/1—The following Assistants of Railway Board Secretariat Service (RBSS) have been promoted as Section Officers of RBSS in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800 + Grade Pay of Rs. 4,800/- (Revised) on

regular basis with effect from the date indicated against each :—

S. No.	Name	Date of Joining
	S/Shri/Ms.	
1.	Arti Singh Lal	01.06.2009 (FN)
2.	Yasir Rizvi	17.06.2009 (FN)
K. B. L. MITTAL, Secy. (Railway Board)		

#### MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi, the 3rd July 2009

No.PR-14019/14/2009-PG (E).—The Central Government hereby appoints Shri Arvind Kumar, IES, Member (Transport Research Wing) Ministry of Road Transport and Highways to hold additional charge Member, Tariff Authority for Major Ports for a further period from 15th June, 2009 to 31st July, 2009.

RAKESH MALHOTRA, Dy. Secy.

#### MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 23rd June 2009

No. A-12023/1/2009-E-I—The President is pleased to appoint Shri K. Kandasamy, Deputy Manager in Cotton

Corporation of India (CCI) as Assistant Private Secretary to the Hon'ble Minister (Road Transport & Highways) (Shri Kamal Nath) in Pay Band 2 Rs. 9300—34,800 with Grade Pay of Rs. 4800/- on deputation/co-terminus basis w.e.f. 1.6.2009 (F.N.) till further orders or till the Minister desires his services whichever is earlier.

V. KRISHNASWAMY, Under Secy.

#### MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 3rd July 2009

No. 20/2009 F. No. 25/3(15)/2008-E.I.—On the results of the Engineering Services Examination, 2007 the President is pleased to appoint Shri Amitabh Meena to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil & Mechanical) of the Central Water Engineering (Group-'A') Service in the PB-3 pay scale of Rs. 15,600—39,100 with grade pay of Rs. 5400/- in the Central Water Commission with effect from 21.05.2009 (FN).

2. Shri Amitabh Meena will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered necessary.

K. RAJAPPA, Under Secy.